

विद्या भवन , बालिका विद्यापीठ, लक्खीसराय

वर्ग -नवम्

विषय -हिन्दी

॥पुनरावृत्ति ॥

॥अध्ययन-सामग्री ॥

निर्देश - दी गई सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें
और समझें और कांपी में लिखें ।

कैदी और कोकिला कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं।माखनलाल चतुर्वेदी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते-लड़ते उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की। यह कविता भी उन्होंने अपनी एक जेल यात्रा के दौरान लिखी।

कवि जेल में अकेले थे , निराश थे , दुखी थे। आधी रात को जब एक कोयल अचानक आकर उनकी जेल की दीवार पर बैठकर बोलने लगती है। तो उस कोयल को देखकर उनके मन में जो भाव आये , उनको उन्होंने एक शानदार कविता के रूप में पिरोया है।

इस कविता में कवि ने अंग्रेज सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों को दी जाने वाली तरह-तरह की यातनाओं के बारे में लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को अंग्रेज सरकार पकड़ कर जेल में डाल देती थी। और फिर उन पर तरह-तरह के अत्याचार , अन्याय किये जाते थे। उनसे कोल्हू (तेल निकालने वाला यंत्र) चलाया जाता था , पत्थर तुड़वाये जाते थे और मोट डालकर कुएं से पानी निकलवाया जाता था।

उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के अन्याय , अत्याचार को सहन किया। लेकिन अपने मन से देशभक्ति की भावना को कम नहीं होने दिया और भारत माता की आजादी के लिए लगातार संघर्ष किया जिसका नतीजा सन 1947 में भारत आजाद हुआ।

इस कविता में कवि कोयल को अपनी सखी मानकर अपने मन की पीड़ा उससे व्यक्त कर रहे हैं। वो कोयल से कहते हैं कि यह समय देश भक्ति के गीत गाने का समय है और तुम देशभक्ति के गीत गाकर इस देश के सोए हुए लोगों को जागृत करो और उनको अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित करो।

इस काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और साथ में तत्सम , तद्भव एवं उर्दू शब्दों का भी अच्छा प्रयोग किया गया है। इस काव्य की भाषा चित्रात्मक व लयात्मक है और इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है।

Kaidi Aur Kokila Class 9 Full Explanation

कैदी और कोकिला कक्षा 9 का भावार्थ

काव्यांश 1 .

क्या गाती हो ?

क्यों रह जाती हो

कोकिल बोलो तो !

क्या लाती हो ?

सन्देश किसका है ?

कोकिल बोलो तो !

भावार्थ -

कवि कहते हैं कि कोयल तुम आधी रात में क्या गा रही हो। यह आजादी का तराना है या पराधीन का दुःख व्यक्त कर रही हो । और फिर गाते-गाते अचानक बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल आखिर कुछ तो बोलो। क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो। कोयल बोलो तो ।